

SECOND SEMESTER EXAMINATION 2021-22**M.A. ECONOMICS****Paper - I****Pricing and Distribution Analysis in
Micro Economics**

Time : 3.00 Hrs.

Max. Marks : 80

Total No. of Printed Page : 04

Mini. Marks : 29

ukV & izu i = rhu [k.MkaeafokDr gSA I Hkh rhu [k.Mkads izu funz kkuq kj gy
dhft ; sA vdkadk foHktu iR; d [k.M eafn; k x; k gSA

Note: Question paper is divided into three sections. Attempt question of all three section
as per direction. Distribution of Marks is given in each section.

[k.M & ^v* Section - 'A'**vfry?kRrjh; izu %Yi 'kCnkæe½****Very short answer question (in few words)**

प्र.1 निम्नांकित प्रश्नों में से किन्हीं छः प्रश्नों को हल कीजिये –

6x2=12

Attempt any six question from the following questions :

(i) पूर्ण प्रतियोगिता में एक फर्म अल्पकाल में क्या प्राप्त करती है ?

What gains in short run a perfectly competitive firm ?

(ii) एकाधिकारी कीमत विभेद की स्थिति में साम्य की शर्त क्या है ?

What is the condition of equilibrium in Monopoly price discrimination ?

(iii) उत्पाद विभेदीकरण क्या है ?

What is Product Differentiation ?

(2)

(iv) अल्पाधिकार के उदय के लिये उत्तरदायी तत्वों का नाम लिखिये।

Write name of factors leading to Emergence of Oligopoly.

(v) कीमत नेतृत्व से आप क्या समझते हैं ?

What do you understand by Price leadership ?

(vi) मजदूरी का सामूहिक सौदेबाजी का सिद्धांत क्या है ?

What is the collective Bargaining theory of wages ?

(vii) कीन्स के अनुसार मुद्रा की मांग के उद्देश्य क्या है ?

What are objective of demand for Money According to Kynes ?

(viii) शुद्ध लाभ का अर्थ बताइये।

Explain the meaning of Net profit.

(ix) कल्याण अर्थशास्त्र के उद्देश्य बताइये।

Describe the objectives of welfare economics.

(x) खेल सिद्धांत की मूल मान्यताएं क्या है ?

What is Basic Assumptions of Game Theory ?

[k.M & ^c* Section - 'B'

y?kRrjh; i'z u 1/200 'kCnka e1/2

Short answer question (In 200 words)

प्र.2 निम्नांकित प्रश्नों में से किन्हीं चार प्रश्नों को हल कीजिये।

4x5=20

Attempt any four question from the following questions :

(i) पूर्ण प्रतियोगिता की विशेषताएं बताइये।

Describe the characteristics of perfect competition.

(ii) कीमत विभेद से आप क्या समझते हैं ?

What do you understand by Price Discrimination ?

(3)

(iii) विक्रय लागत का अभिप्राय समझाइये।

Explain the meaning of selling cost.

(iv) विकृंचित मांग वक्र से क्या अभिप्राय है ?

What do you mean by kinked Demand curve ?

(v) "लाभ अज्ञात जोखिम का पुरस्कार है।" – समझाइये।

Profit is the reward of unknown Risk." - Explain.

(vi) हिक्स एवं काल्डोर के क्षतिपूर्ति नियम से आप क्या समझते हैं ?

What do you understand by Hicks and Kaldor's compensation principle.

(vii) रेखीय प्रोग्रामिंग की मान्यताएं एवं महत्व को समझाइये।

Explain Assumptions and Importance of Linear Programming.

[k.M & ^1 * Section - 'C'

nh?k mRrjh; i zu %uc/RRed½

Long answer/Essay type question.

प्र.3 निम्नांकित प्रश्नों में से किन्हीं चार प्रश्नों को हल कीजिये।

4x12 = 48

Attempt any four question from the following questions :

(i) सामान्य लाभ को परिभाषित कीजिये। पूर्ण प्रतियोगिता में फर्म सदैव दीर्घकाल में सामान्य लाभ ही क्यों कमाती है ? स्पष्ट कीजिये।

Define normal profit. Why does a perfectly competitive firm earn only normal profit in long-run ? Explain.

(ii) एकाधिकारी साम्य से क्या अर्थ है ? व्याख्या कीजिये कि किस प्रकार एक एकाधिकारी दीर्घकाल में अपनी वस्तु की कीमत का निर्धारण करता है ?

What is meant by monopoly equilibrium ? State and Explain how does a monopolist fix his price in the long period ?

(4)

- (iii) एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता के अंतर्गत संतुलन के लिए चेम्बरलिन एवं श्रीमती जॉन रॉबिन्सन के दृष्टिकोण में अंतर कीजिये।

Distinguish between chamberlin and Mrs. John Robinson's approach to equilibrium in Monopolistic competition.

- (iv) द्वयाधिकार में कीमत निर्धारण किस प्रकार होता है ? समझाइये।

How is the price determined under Duopoly ? Explain.

- (v) वितरण के सीमांत-उत्पादकता सिद्धांत की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिये।

Critically examine the Marginal Productivity theory of Distribution.

- (vi) रिकार्डो के लगान सिद्धांत का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिये।

Critically Examine the Ricardian theory of Rent.

- (vii) पेरीटियन अनुकूलतम की दशाओं की व्याख्या कीजिये।

Explain the conditions of Paretian optimum.

--00--